



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 577]
No. 577]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 1978/ पौष 8, 1900
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 1978/PAUSA 8, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

इस्पात और लौह मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1978

का० प्रा० 744 (अ).—आव० वस्तु/लोहा और इस्पात :—केन्द्रीय सरकार लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के खण्ड 17ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा०/1567/ आव० वस्तु/लोहा और इस्पात तारीख 7 अप्रैल, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,

(क) खण्ड 2 में, उपखण्ड (क) में 'गठन' शीर्ष के नीचे मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) मुख्य इस्पात संयंत्रों का, अर्थात् टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इण्डियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन मिलालई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र का एक एक प्रतिनिधि।”;

(ख) 'कृत्य' शीर्ष के नीचे उपखण्ड (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“9(क) समिति, मुख्य इस्पात संयंत्रों से वांछित प्रयोगों और प्रेडों में लोहे और इस्पात का उत्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उनके आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विकास के लिए एक निधि का गठन करने हेतु उपखण्ड (8) के अधीन प्रवधारित की गई संकर्म द्वारा कीमतों में एक अंश और जोड़ सकती है। इस निधि के प्रचालन के संबंध में समिति अपने कृत्यों का पालन ऐसे विनियमों या निर्देशों के अधीन रहते हुए करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

9(ख) समिति अपने कृत्यों का पालन करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपी गई विनिर्दिष्ट स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए उपखण्ड (8) के अधीन प्रवधारित संकर्म द्वारा कीमतों में कोई अन्य अंश भी जोड़ सकती है।”

(ग) उपखण्ड (13) में, मद (ख) में, उपमद (ख) में,—

(ii) “सदस्य” शीर्ष के नीचे त्रम संख्या (x) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(xi) सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय;

- (xii) विकास प्रायुक्त, लघु उद्योग
- (xiii) अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
- (xiv) निदेशक (वाणिज्यिक), स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
- (xv) प्रबन्ध निदेशक, भिलाई इस्पात संयंत्र,
- (xvi) प्रबन्ध निदेशक, राउरकेला इस्पात संयंत्र,
- (xvii) प्रबन्ध निदेशक, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र,
- (xviii) प्रबन्ध निदेशक, बोकारो इस्पात संयंत्र,
- (xix) प्रबन्ध निदेशक, टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड,
- (xx) प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड,
- (ii) "सदस्य सचिव" शीर्ष के नीचे, विद्यमान क्रम सं० "(xxi)" को क्रम सं० "(xxii)" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।
[सं० एस० सी० 13 (2)/78-डी० आई० बी०]
के० जे० एम० शेट्टी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 1978

S. O. 744 (E).—/ESS. COMM/IRON & STEEL.—In exercise of the powers conferred by clause 17B of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Heavy Engineering No. S. O./1567/ESS. COMM/IRON & STEEL, dated the 7th April, 1971, namely :—

In the said notification,

- (a) in clause 2,—in sub-clause (a), under the heading 'Composition', for item (ii), the following shall be substituted, namely :—

"(ii) one representative each of the main steel plants, that is to say, the Tata Iron and Steel Company Limited, the Indian Iron and Steel Company Limited, the Bhilai Steel Plant, the Bokaro Steel Plant, the Durgapur Steel Plant and the Rourkela Steel Plant under the Steel Authority of India Limited.";

- (b) under the heading 'Functions', after sub-clause (9), the following sub-clauses shall be inserted, namely :—

"(9A). The Committee may add an element to the ex-works prices determined under sub-clause (8) for constituting a fund for modernisation, research and development with the object of ensuring the production of iron and steel in the desired categories and grades by the main steel plants. In the matter of operation of this fund, the Committee shall perform its functions in accordance with, and subject to, such regulations or directions as may be issued by the Central Government from time to time.

- 9(B). The Committee may also add any other element to the ex-works prices determined under sub-clause (8) to enable it to discharge its functions and to implement specific schemes entrusted to it by the Central Government."

- (c) in sub-clause (13), in item (B), under sub-item (b).

- (f) under the heading "Members" after serial No. (x) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(xi) Secretary, Ministry of Works and Housing.

(xii) Development Commissioner, Small Scale Industries.

(xiii) Chairman, Steel Authority of India Limited.

(xiv) Director (Commercial), Steel Authority of India Ltd.

(xv) Managing Director, Bhilai Steel Plant.

(xvi) Managing Director, Rourkela Steel Plant.

(xvii) Managing Director, Durgapur Steel Plant.

(xviii) Managing Director, Bokaro Steel Plant.

(xix) Managing Director, Tata Iron and Steel Company Limited.

(xx) Managing Director, Indian Iron and Steel Company Limited.

- (ii) under the heading Member-Secretary, the existing serial No. "(xxi)" shall be renumbered as serial No. "(xxii)".

[No. SC-13(2)/78-DIB]

K. J. M. SHETTY, Jt. Secy.